

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के आंकड़े एक नजर में

सूचक	मार्च 2004	मार्च 2005	मार्च 2006	मार्च 2007	मार्च 2008	मार्च 2009	मार्च 2010	मार्च 2011	मार्च 2012
वाणिज्य बैंकों की संख्या	291	288	222	182	173	170	167	167	173
(ए) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	286	284	218	178	169	166	163	163	169
जिसमें से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	196	196	133	96	90	86	82	82	82
(बी) गैर-अनुसूचित वाणिज्य बैंक	5	4	4	4	4	4	4	4	4
भारत में बैंक कार्यालयों की संख्या	69170	70373	72072	74653	78787	82897	88203	94019	101261
(ए) ग्रामीण	32227	30790	30251	30409	30927	31598	32529	33868	36130
(बी) अर्ध-शहरी	15288	15325	15991	16770	18027	19337	21022	23299	25931
(सी) शहरी	11806	12419	13232	14202	15566	16726	18288	19046	20321
(डी) महानगरीय	9750	11839	12598	13272	14267	15236	16364	17806	18879
प्रति कार्यालय जन संख्या (हजार में)	16	16	16	15	15	15	14	13	13
भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियां (बिलियन रुपये में)	15044.16	17001.98	21090.49	26119.34	31969.40	38341.10	44928.26	52079.69	59090.82
(ए) मांग जमा	2250.22	2480.28	3646.40	4297.31	5243.10	5230.85	6456.10	6417.05	6253.30
(बी) सावधि जमा	12793.94	14521.71	17444.09	21822.03	26726.30	33110.25	38472.16	45662.64	52837.52
भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का ऋण (बिलियन रुपये में)	8407.85	11004.28	15070.77	19311.90	23619.13	27755.49	32447.88	39420.83	46118.52
अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के एस.एल.आर. निवेश (बिलियन रुपये में)	6775.88	7391.54	7174.54	7915.16	9717.14	11664.10	13847.53	15016.19	17377.87
अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की प्रति कार्यालय जमाराशियां (मिलियन रुपये में)	227	257	305	368	434	498	548	609	643
अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की प्रति कार्यालय ऋण (मिलियन रुपये में)	133	170	221	276	322	362	398	458	502
अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की प्रति व्यक्ति जमाराशियां (रु.)	14089	16281	19130	23382	28610	33919	39107	45505	51106
अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की प्रति व्यक्ति ऋण (रु.)	8273	10752	13869	17541	21218	24617	28431	34187	39909
सकल राष्ट्रीय उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमाराशियां (वर्तमान मूल्य पर)	57.8	57.7	62.7	66.6	70.1	72.7	74.2	73.6	72.5
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के अग्रिम (बिलियन रुपये)	2766.21	3706.03	5127.90	6553.17	7814.76	9089.29	10915.10	13158.59	14713.3
अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कुल ऋण में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों का हिस्सा (प्रतिशत)	32.0	32.2	33.8	33.1	31.6	30.3	31.2	30.6	29.0
ऋण - जमा अनुपात (प्रतिशत)	55.9	62.6	70.1	73.5	74.6	73.8	73.7	76.5	78.6
निवेश - जमा अनुपात (प्रतिशत)	45.0	47.3	40.0	35.3	35.5	35.7	36.4	34.3	34.6
नकद - जमा अनुपात (प्रतिशत)	7.2	6.4	6.7	7.2	9.7	7.3	7.7	8.2	5.8

टिप्पणियां :

- 1) बैंकों के कार्यालयों की संख्या में प्रशासकीय कार्यालय शामिल हैं।
- 2) जनसंख्या के अनुसार बैंक कार्यालयों का वर्गीकरण मार्च 2004 तक 1991 की जनगणना पर आधारित है। मार्च 2005 से मार्च 2012, के लिए, बैंक कार्यालयों का वर्गीकरण 2001 की जनगणना पर आधारित है।
- 3) प्रति कार्यालय जनसंख्या, प्रति व्यक्ति जमाराशियां और प्रति व्यक्ति ऋण के आंकड़े, रजिस्ट्रार जनरल, भारत, के कार्यालय से प्राप्त अनुमानित जनसंख्या मार्च 1 की स्थिती पर आधारित है।
- 4) भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियां, बैंक ऋण और एस.एल.आर. निवेश भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के अन्तर्गत "फार्म ए" विवरणियों के अनुसार है और संदर्भ अवधि के अन्तिम शुक्रवार से संबंधित हैं।
- 5) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की और से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए गए अग्रिमों और अनुपातों के आंकड़ों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नहीं लिया गया है।
- 6) नकदी - जमा अनुपात निकालने के लिए, हाथ में रोकड़ और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमाराशि के योगफल को नकदी माना गया है।
- 7) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के भारत में निवेशों में केवल सरकारी प्रतिभूतियां और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां शामिल हैं।